

खुद को जाना तो सब जान लिया

इनसे मिलिए

सीमा झा

नृत्य से जुड़ाव कब हुआ ?
जब मैं नी साल थी, मेरी मां मुझे एक मंदिर ले गई। वहाँ किसी महिला ने मां से कहा इस लड़की के पैर लंबे हैं, आप इसे डांस के लिए क्यों नहीं भेजती? मां खुद डांस टीचर थी। उहोंने फौलन पूछ लिया कि इसे डांस सिखाएगा कौन? उस महिला ने कहा मैं हूं न, मैं सिखाऊंगी इसे। वही मेरी डांस गुरु बनी। वही से शुरू हआ मेरी जिंदगी का सफर, जिसमें नृत्य का सबसे बड़ा योगदान है।

मां-पिताजी ने शिक्षा पर जोर नहीं दिया ?

उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी। एक बढ़िया स्टूडेंट थी, पर जैसा कि आप जानती होंगी दीक्षिण भारत में कला की अभियान बहुत है। वन्वें को इसकी शिक्षा जरूरी मानी जाती है। इसका अर्थ यह नहीं था कि पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता। मेरे पिताजी और मां दोनों ने मुझे पढ़ाई और कला दोनों में निपुण बनाने के लिए मुझे पूरी स्वतंत्रता दी, किंवदं दबाव नहीं था।

पिता चाहते थे मैं बैसिक शिक्षा जरूर प्राप्त कर लूं और कम से कम 10वीं तक रहो।

अब तो उत्तर भारत में भी कला को लेकर काफी सजग हैं अभिभावक ?

हाँ, लोकन मुझे यह देखकर दुख होता है कि कला को बुद्धि की संरुपि के लिए अपनाया जा रहा है, इसे पूरा तवज्ज्ञ नहीं मिल पा

रहा। आज भी ज्यादातर अभिभावक बस इसे सजावटी सामान की तरह समझते हैं। इसे अलग से बस शैक्षिया तौर पर अपना जाता है। इसलिए कला के प्रभाव से जिंदगी अल्पती रह जाती है, बन्ज इसे समझ नहीं पाते कि कल हमारी जिंदगी को कितना खुबसूरत बना सकती है। दरअसल, शिक्षा के साथ कला का समावेश जरूरी है। इसमें भी कोया होना चाहिए। इससे कला को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। कला से जुड़ाव

बढ़ेगा तो व्यक्तिगत विकास भी होगा। करी पता की तरह नहीं होना चाहिए, कि मनोरंजन हो बस या आप लोगों को बता सकें। हम भी बस का लोगा मैं सहित हैं। ब्यूरोक्रेट बनने का खलाफ कब आया ? मैंने फुलटाइम डॉस करते-करते पढ़ाई को। हैंडरिवाट में पढ़ाई करने के दौरान कई परफर्फैर्मेंस दिए। कॉमर्स में दिग्गी ली थी। पढ़ाई प्राइवेट ही रही। इस दौरान कॉलेज क्या होता है, ये सब पता नहीं था। अचानक लगा ग्रेजुएशन काफी नहीं है। वास्टर्स करना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैपस क्या होता है, कॉलेज बंक करना क्या होता है, मन्त्री क्या होती है पता ही नहीं था। मैं इसका अनुभव लेना चाहती थी। एंसिस्टेंट हिस्ट्री कल्लर ऐंड आर्कियोलॉजी पसंद था। इस विषय में यूनिवर्सिटी टॉप किया। जेआरएफ भी मिला। उसी दौरान कैपस में देखा कि काफी लोगों को एजाम दे रहे हैं। पूछने पर पता चल सिव्हिल सर्वियज का एजाम है। मेरी रुचि बही। मैंने भी यह एजाम देने का मन बनाया। तैयारी की और हमें मजाक में ही यह एजाम भी दिया। इस दौरान मां के कई बार कहा कि तुम्हारा डांस टॉप जाएगा, मत कर ही यह सब, पर मैं यह अनुभव भी लेना चाहती थी। इसे चुनौती की तरह ही लिया। अंततः सेलेक्शन हो गया। रेलवे ट्रैफिक सर्विस में ऑफिसर बने। शादी कब हुई, अपने बैवाहिक जीवन के बारे में बताए ? मैं भूमि में अपनी नौकरी कर रही थी कि अचानक मेरे भावी जीवनसाथी से मुलाकात हुई। वह बड़ी रोचक मुलाकात थी। मैं रेलवे सर्विस में थी और मेरे पति जयंत द्वारा कपानी था। मार्केटिंग में थे। वह मेरे आफिस में जरोक्यू मीटिंग लगावने आए और अपना दिल देकर चले गए। जयंत के रूप में मैंने एक बेहतरीन दोस्त भी पाया है, जो हर मोर्चे पर

मेरे साथ-साथ चलते हैं। मुझमें आत्मविश्वास भरते हैं और हर मुश्किल में ढाल बनकर साथ खड़े मिलते हैं। मैं रेलवे ऑफिसर हूं, डांसर हूं, डास टीचर हूं, कई मोर्चे पर सक्रिय हूं, लेकिन जब उनके साथ हूं बस एक पत्नी, एक दोस्त हूं।

इनसे मोर्चे पर सक्रिय रहना आसान नहीं है, कैसे संतुलन बनाती है ?

संतुलन सबसे पहले अपने जेहन में बनाना होता है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट रहता है, पैशा साथ होता है तो समय प्रबंधन हो जाता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने जॉब में बेस्ट परफर्मेंस दूं। साथ ही साथ समाज को भी कुछ योगदान दूं। इसलिए कभी नहीं समझा कि एक स्त्री हूं तो घर के कामकाज करूंगा। मैं कभी खाना नहीं बनाती, स्पोर्ट सिस्टम की मदद लेती हूं। मेरा पूरा फोकस रहता है कि कला के प्रसार-प्रचार में, इसे लेकर कोई समझौता नहीं करती।

भारतीय महिलाओं का कितना विकास हुआ है ?

बहुत बदलाव हुए हैं, पर यह जरूर कहाँगी कि स्त्री की परापरक छवि आज भी वही है, जो पहले थी। इस छवि को तोड़ने के लिए मीडिया की भूमिका खाली है। वह चाहे तो वह स्त्री की बनी-बनाई छवि को तोड़ सकता है। वह वास्तविक स्त्री से परिचय नहीं करता या तो खुब ग्लैमर दिखाता है या गहने-जेवर लटी-फटी, बंधनों में जकड़ी स्त्री की। हम-आप जैसी स्त्रियों से परिचय हो तो लोगों को पता चले कि स्त्री बदलती है और काफी बदल रही है।

मुझा है आप कैसर जैसी बीमारी की शिकार बनी और उससे उबरी भी ?

हाँ, मैं अपने रेशम में दूधी थी, जिंदगी परती पौधी की अचानक एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जिंदगी। डॉस का एक बड़ा आयोजन होना था, उसमें देश की बड़ी-बड़ी शालियां शिरकत करने वाली थीं, मैं इस आयोजन को किसी कीमत पर कामयाब बनाना चाहती थी कि अचानक जिंदगी में बड़ा जर्क आया, पता चला मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। मेरे पति उस दौर में अपने चट्टानी मनोवृत्त के साथ खड़े थे। वह खूबी जानते थे कि मैं जिंदगी हूं, जूनी हूं। मुझे कोई भी मुसीबत दिया नहीं सकती। कमोथेरेपी हुई। मेरे बाल गिर गए, लेकिन मेरा डांस नहीं हुआ। सर्जरी के बाद बिग पहनकर डांस करने का वह दौर मेरे साथ-साथ कहयों को नहीं भूला होगा...। वह जिंदगी की किताब के एक पने की तरह पलट गया। अब जिंदगी के दूसरे चैटर को पढ़ रही हूं।

आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ?

जिंदगी सब सिखाती है। हौसला बड़ी नीज है, जिसे कभी नहीं खाना चाहिए। मेरा कैसर पर दिया गया स्पीच देश के टॉप 12 कैसर टीवीडी स्पीच में से थे। डॉसर, कॉरियोग्राफर के रूप में ही नहीं थी बुलाया जाता है तो मैं एक ही बात कहती हूं कि जिंदगी में खुद को जानना पहली चीज़ है, इसके बाद आप सब आसानी से समझने लगते हैं।

जो स्क्रियां हुनरमंद हैं, पर आगे नहीं बढ़ रहीं, उनसे क्या कहेंगी ?

आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी जिंदगी पर आपका पूरा हक है, हमें समझें। अपना कैसला लेने की ताकत पैदा करें। आत्मविश्वास है तो सब संभव है।

वह नृत्यांगना हैं,
ब्यूरोक्रेट हैं, पर उनका मिजाज
है एक मोटिवेशनल गुरु का। अनेक
मोर्चे पर विजेता रहीं और पदमश्री व संगीत
नाटक अकादमी अवॉर्ड से नवाजी गईं
भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी नृत्यांगना आनंदा
शंकर जयंत ने कैसर जैसी असाध्य
बीमारी पर भी जीत हासिल
की है

वह नृत्यांगना हैं,
ब्यूरोक्रेट हैं, पर उनका मिजाज
है एक मोटिवेशनल गुरु का। अनेक
मोर्चे पर विजेता रहीं और पदमश्री व संगीत
नाटक अकादमी अवॉर्ड से नवाजी गईं
भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी नृत्यांगना आनंदा
शंकर जयंत ने कैसर जैसी असाध्य
बीमारी पर भी जीत हासिल
की है

वह नृत्यांगना हैं,
ब्यूरोक्रेट हैं, पर उनका मिजाज
है एक मोटिवेशनल गुरु का। अनेक
मोर्चे पर विजेता रहीं और पदमश्री व संगीत
नाटक अकादमी अवॉर्ड से नवाजी गईं
भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी नृत्यांगना आनंदा
शंकर जयंत ने कैसर जैसी असाध्य
बीमारी पर भी जीत हासिल
की है

